

PGIL/SE/2023-24/71

Date: November 9, 2023

THE GENERAL MANAGER,

DEPARTMENT OF CORPORATE SERVICES -

CRD

BSE LIMITED

1ST FLOOR, NEW TRADING RING

ROTUNDA BUILDING, P. J. TOWERS

DALAL STREET, FORT,

MUMBAI - 400 001

Reg: Scrip Code: BSE-532808;

THE GENERAL MANAGER,

LISTING DEPARTMENT

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA

LTD.

"EXCHANGE PLAZA", PLOT NO. C-1,

G-BLOCK, BANDRA - KURLA COMPLEX,

BANDRA (E),

MUMBAI - 400 051

NSE - PGIL

Sub: Intimation of publication of un-audited Financial Results for the quarter and half year ended

September 30, 2023

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 and other applicable Regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith copies of Newspaper publication of un-audited consolidated & standalone Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023, published in the "Business Standard" English (All India Editions) and "Business Standard" Hindi (Delhi Edition), on November 9, 2023.

You are requested to kindly take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully, for Pearl Global Industries Limited

(Shilpa Budhia)
Company Secretary and Compliance Officer
ICSI M. No.: ACS-23564

Encl: as above

Pearl Global Industries Limited

Corp. Office: Pearl Tower, Plot No. 51, Sector-32, Gurugram – 122001, Haryana (India)

T: +91-124-4651000 | E: info@pearlglobal.com

CIN: L74899DL1989PLC036849

Regd. Office: C-17/1, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi - 110057

MAJESTIC

मजेस्टिक ऑटो लिमिटेड

सीआईएनः L35911DL1973PLC353132, पंजीकृत कार्यालयः 10, साऊदर्न एवेन्यू, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065 रपोरेट कार्यालयः ए—110, सेक्टर—4, नोएडा—201301 संपर्कः 0120—4348907, www.majesticauto.in, ईमेलः info@majesticauto.ir

30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए लेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

विवरण	एकल				समेकित							
	तिमाही समाप्त		छमाही	छमाही समाप्त वर्ष समाप्त		तिमाही समाप्त			छमाही समाप्त		वर्ष समाप्त	
	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
प्रचानलों से कुल आय	3,600	695	880	4,295	1,451	3,225	4,620	1,714	1,599	6,334	2,894	6,103
कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि)	2,793	29	234	2,822	258	768	3,116	369	486	3,484	669	1,360
कर पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)	2,070	14	173	2,084	150	15	2,314	250	357	2,564	403	472
अवधि के लिए कुल समग्र	3,292	4,918	(1,311)	8,210	2,469	560	3,536	5,154	(1,127)	8,690	2,721	1,010
आय [अवधि के लिए												
लाभ / (हानि) (कर पश्चात)												
और अन्य समग्र आय (कर												
पश्चात) शामिल]												
इक्विटी शेयर पूंजी	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
अन्य इक्विटी (लेखापरीक्षित				47,363	41,841	39,153				49,296	43,169	40,639
तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)												
प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)												
(अंकित मूल्य रु. 10 / — प्रत्येक)												
प्रति शेयर अर्जन रु. में												
बेसिक	19.91	0.13	1.67	20.05	1.44	0.14	22.26	2.40	3.44	24.66	3.87	4.54
डाइलूटड	19.91	0.13	1.67	20.05	1.44	0.14	22.26	2.40	3.44	24.66	3.87	4.54

क) 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित समेकित और एकल वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निवेशक मंडल द्वारा 08 नवंबर, 2023 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।

ख) ऊपर सेबी (सूचीबृद्ध दायित्व और अन्य प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गए 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए एकल और समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का एक सार है। इन वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट मजेस्टिक ऑटो लि. के लिए

स्थान: दिल्ली दिनांकः 08.11.2023 (महेश मुंजाल)

प्य एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड

CIN: L67120HR1994PLC034148

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरूग्राम - 122001, हरियाणा फोन: + 91-124-4675500, फैक्स: + 91-124-4370985

ई-मेल : corporate@hbportfolio.com, वेबसाइट : www.hbportfolio.com

30/09/2023 को समाप्त तिमाही/अर्द्ध-वर्ष हेतु अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (पृथक्कृत और समेकित) का विवरण

							(रू. लाख में)
क्र.	विवरण		पृथक्कृत			समेकित	
सं.		तिमाही	पूर्व वर्ष में	अर्द्ध वर्ष	तिमाही	पूर्व वर्ष में	अर्द्ध वर्ष
		समाप्त	संगत तिमाही	समाप्त	समाप्त	संगत तिमाही	समाप्त
			समाप्त			समाप्त	
		30/09/2023	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2023
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित
1.	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	27.76	55.79	397.54	588.04	385.29	1093.74
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ /(हानि) (कर, अपवाद मदों से पूर्व)	(41.22)	(3.95)	258.65	268.23	126.55	434.90
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ /(हानि) कर से पहले (अपवाद मदों के बाद)	(41.22)	(3.95)	258.65	268.23	126.55	434.90
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ /(हानि) कर पश्चात (अपवाद मदो के बाद)	(69.22)	(4.57)	215.65	200.01	138.72	311.03
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ /(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है]	4714.96	486.42	6218.25	5259.73	752.92	6755.62
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42
7.	संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर जैसाकि पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाया गया है)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8.	प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु)						
	मूल : तनुकृत :	(0.64) (0.64)	(0.04) (0.04)	2.00 2.00	1.86 1.86	1.29 1.29	2.89 2.89
\sqcup	3.5	(0.01)	(0.01)	2.00	1.00	1120	2.00

(i) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज को प्रस्तुत किए गए तिमाही/अर्द्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही/अर्द्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट. बीएसई लिमिटेड, www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.hbportfolio.com पर उपलब्ध है।

(ii) उपरोक्त परिणाम अंकेक्षण समिति के समक्ष 08 नवम्बर, 2023 को सम्पन्न उसकी बैठक में प्रस्तुत एवं उसके द्वारा पुनरीक्षित किए गए थे और निदेशक मंडल द्वारा उसी तिथि को सम्पन्न उसकी बैठक में अनुमोदित किए गए थे।

कृते एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेर

स्थान : गुरूग्राम तिथि : 08/11/2023

अनिल गोयल (प्रबंध निदेशक DIN: 00001938



स्थान : डलास टीएक्स, यूएसए

तिथि : नवम्बर 07. 2023

आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

(कारपोरेट पहचान संख्याः L74899DL1993PLC053579) पंजीकृत कार्यालय : जीएफ-1-ए, 6, देविका टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 दूरभाष : +91 120 4303500; फैक्स : +91 129 4082699;

वेबसाइट : www.rsystems.com; ईमेल : rsil@rsystems.com

30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के संगठित वित्तीय परिणामी का सार						
	(स	50 मिलियन में, प्रति ३	रोयर डाटा को छोड़कर)			
विवरण	समाप्त 1	समाप्त नौमाही				
	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023			
	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)			
परिचालन से आय	4,573.47	3,982.39	12,681.98			
कर से पहले लाभ*	622.17	454.62	1,555.30			
अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ*	439.75	367.90	942.35			
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय/(हानि) (कर के बाद) शामिल है]	443.19	375.33	939.36			
चुकता इक्वीटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य रू० 1/- प्रति शेयर)	118.31	118.31	118.31			
दिसम्बर 31, 2022 को आरक्षित निधि पूर्नमूल्यांकन आरक्षित निधि को हटाकर			5,336.39			
प्रति शेयर आय (वार्षिकीकृत नहीं) (इक्वीटी शेयर प्रति मूल्य रू० 1/- प्रति शेयर)	3.72	3.11	7.97			

* उपरोक्त अवधि के लिए रिपोर्ट करने हेत् कम्पनी के पास कोई असाधारण एवं असामान्य मद नहीं है। टिप्पणीयाँ:

- सितम्बर 30, 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के संगठित वित्तीय परिणाम भारतीय लेखा मानक 34 'अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिग' ('आईएनडी एएस 34') में निर्धारित मान्यता और माप सिद्वान्तों के अनुसार तैयार किये गये हैं। उपरोक्त परिणामों की अंकेक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई एवं निदेश मंडल द्वारा उनकी नवम्बर 07, 2023 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदन किया गया।
- सितम्बर 30 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के एकीकत अंकेक्षित विनीय परिणामों का सार

2. विसम्बर ५0, २०२५ को तमारा सिमाहा देव भागाहा के देवमधूरी अवमहारा विसाव वारणामा का सार						
			(रू० मिलियन में)			
विवरण	समाप्त f	समाप्त नौमाही				
	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023			
	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)			
परिचालन से आय	2,430.96	2,172.71	6,965.92			
कर से पहले लाभ*	463.62	353.58	1,876.49			
अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ*	344.39	296.26	1,364.60			
अविध के लिए कुल व्यापक आय [अविध के लिए लाम (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय/(हानि) (कर के बाद) शामिल हैं]	348.94	298.36	1,364.72			

* उपरोक्त अवधि के लिए रिपोर्ट करने हेतु कम्पनी के पास कोई असाधारण एवं असामान्य मद नहीं है।

उपरोक्त सेबी (सुचीबद्धता दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 यथा संशोधित, के अंर्तगत स्टॉक एक्सचेन्जों में दाखिल किये गये तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्जों की वेबसाइटों i.e. www.bseindia.com www.nseindia.com एवं कम्पनी की वेबसाइट www.rsystems.com पर उपलब्ध है।

> निदेशक मंडल की ओर से कृते आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

नीतेश बंसल प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी DIN: 10170738

PEARL GLOBAL Exceeding Expectations...Always

PEARL GLOBAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74899DL1989PLC036849

Registered Office.: C-17/1, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057 Corp. Off.: Pearl Tower, Plot No. 51, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon-122001, Haryana

Tel: 0124-4651000; E-mail: investor.pgil@pearlglobal.com; Website: www.pearlglobal.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

(Rs. in Lakhs except earning per share)

			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		<u> </u>
S. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations	96,792.57	1,86,956.84	86,800.89	3,18,121.91
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,Exceptional and/or Extraordinary items*)	4,558.64	10,313.80	3,235.67	16,238.96
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items*)	4,553.26	10,306.25	3,195.59	17,584.92
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	3,896.01	8,631.82	2,588.29	15,299.22
5	Total Comprehensive Income for the period(Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	3,866.81	8,239.39	876.54	13,995.27
6	Equity Share Capital	2,166.39	2,166.39	2,166.39	2,166.39
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	_	_	_	70,080.17
8.	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (not annualised)				
	Basic	18.32	40.50	10.68	68.90
	Diluted	18.22	40.33	10.68	68.79
/*\ □·	voontional and/or Extraordinary items adjusted in the Sta	stoment of Drofit	9 Locs in accord	Janes with Ind A	S Dules

(*) Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit & Loss in accordance with Ind AS Rules.

- (1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Finacial Results (both Consolidated & Standalone) are available on the Company's website at www.pearlglobal.com, besides the websites of BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.
- (2) The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of the Directors of company at their meetings held on November 8, 2023.
- (3) Additional information on standalone financial results pursant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

(Rs. in Lakhs)

	Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Ended 31.03.2023 (Audited)
Turnover	21,850.25	47,599.78	30,052.41	1,10,377.07
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items	133.03	1,671.13	739.45	6,167.05
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)				
and Other Comprehensive Income (after tax)	18.62	1,395.28	344.74	5,103.22
	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items Total Comprehensive Income for the period	Turnover 21,850.25 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items 133.03 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)	Turnover 21,850.25 47,599.78 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items 133.03 1,671.13 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)	(Unaudited)(Unaudited)(Unaudited)Turnover21,850.2547,599.7830,052.41Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items133.031,671.13739.45Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)

देनांकः 09.11.2023

By order of the Board

For Pearl Global Industries Limited (Pallab Banerjee)

Managing Director DIN 07193749



U.P. COOPERATIVE SUGAR FACTORIES FEDERATION LTD 9-A, RANA PRATAP MARG, LUCKNOW-226001 Tel No. (0522) 2612849, (0522)2628310, Fax: (0522) 2627994

 ${\bf Email: upsugarfed@yahoo.co.in \mid Website: www.upsugarfed.org}$

SHORT TERM TENDER NOTICE On line e-tenders are invited from experienced parties for implementation of

dedicated cloud server to our Federation office & All Cooperative Sugar Factories of U.P., The e-tender documents with detailed specifications, terms and conditions etc. can be downloaded from e-tender portal http://etender.up.nic.in & federation website www.upsugarfed.org

Place: Gurugram Dated: November 8, 2023

The Federation reserves the right to cancel any or all bids/annul e-bidding process without assigning any reason to & decision of Federation will be final & (RAMAKANT PANDEY)

एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

कॉरपोरेट कार्यालयः कनकिया वॉल स्ट्रीट, पांचवीं मंजिल, ए 506-510, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400093 कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति के लिए)

(अवंत सम्मान के लिए)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अधीन)
चूंकि, एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पंजीकृत कार्यालय एम्बिट हाउस, 449, सेनापित बापत मार्ग, लोअर
परेल, मुंबई-400 013, कॉरपोरेट कार्यालय कनकिया वॉल स्ट्रीट, पांचवीं मंजिल, ए 506-510, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट,
मुंबई-400093 तथा शाखा कार्यालय डीएसएम 352-354, तीसरी मंजिल, डीएलएफ टावर, शिवाजी मार्ग, मोती नगर, नई दिल्ली 3110015 के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिमूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 का 2002) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के तहत यहां नीचे उल्लेखित तारीख को मांग सूचना जारी की गई थी, जिसमें निम्नलिखित कर्जदारों को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम, जिसका उल्लेख यहां नीचे किया गया है, चुकता करने को कहा गया था।

नीचे उल्लेखित कर्जदारों द्वारा सूचना में वर्णित रकम का भुगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा नीचे उल्लेखित कर्जदारों एवं आम जनता को सचित कियाँ जाता है कि रूपर उल्लेखित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पितत प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर

कर्जदारौं/सह-कर्जदारों/	मांग सूचना	अचल सम्पत्ति/गिरवी पर	कब्जा की
गारंटीदाताओं के नाम	की तारीख	रखी गई सम्पत्ति का विवरण	तारीख
एवं ऋण खाता संख्या	रकम		कब्जा का प्रकार
1. मेटलऑन मार्केटिंग	21.07.2023	वार्ड नं. VIII, बाजार अजमेरी गेट, दिल्ली-110006	07.11.2023
2. सुरभि अग्रवाल	₹. 36,86,852.69/-	में स्थित नगरपालिका सं. 123 वाली सम्पत्ति पर निर्मित	
3. प्रफुल्ल कुमार	(रुपये छत्तीस लाख	मनोहर मैंशन के अपर भूतल पर वाणिज्यिक दुकान	प्रतीकात्मक
4. अनिल कुमार	छियासी हजार आठ	प्राइवेट नं. 08, छत/टेरेस के अधिकार के बगैर, क्षेत्र	कब्जा
ऋण नं.	सौ बावन एवं पैसे	का परिमाप 119.56 वर्ग फीट लगभग। जिसका प्रवेश	
DEL000000026768	उनहत्तर मात्र)	सम्पत्ति सं. 152 से है, प्रत्याभूत सम्पत्तियों की चौहदीः	
	दिनांक	पूर्व में: दुकान प्रा. नं. 9, पश्चिम में: दुकान प्रा. नं. 7,	
	10.07.2023 को	उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिण मेंः रास्ता	

विशेष तौर पर कर्जदार तथा आम तौर पर जन साधारण को एतदृद्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा यहां ऊपर उल्लेखित रकम तथा उस पर ब्याज की रकम के लिए एम्बिट फिनवेस्ट

कर्जदार का ध्यान प्रत्यामृत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थानः दिल्ली विजय शर्मा, अधिकृत अधिकारी दिनांकः 08/11/2023 एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

NOTICE

Pursuant to Section 13 of the Limited Liability Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009

यूको बैंक 倒 UCO BANK

निविदा की सूचना यूको बैंक जेम पोर्टल के माध्यम से एंड पॉइंट्स और सर्वरों के लिए आई टी एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन व्हाइटलिस्टिंग सॉल्यूशंस की आपूर्ति, स्थापना एवं रखरखाव (पुनः निविदा) के लिए निविदा आमंत्रित करता है। किसी मी विवरण के लिए कृपया https://www.ucobank.com or https://gem.gov.in वेबसाइट पर

सम्मान आपके विश्वास का | Honours Your <u>Trust</u>

(भारत सरकार का उपक्रम) प्रधान कार्यालय — II, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 3 और 4, डीडी ब्लॉक, सेक्टर —1, साल्ट लेक, कोलकात

Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the Limited Liability Partnership (LLP) from one state to another

In the matter of Convolution Engineering Consultancy LLP having its registered office at Flat No-A4/802 8th Floor Tower No-4 Tulip violet Sector-69, Gurgaon, Haryana 122001, Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make application under section 13 of the Limited Liability Act, 2008 read with rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 seeking confirmation of alteration of the agreement of the LLP to enable the LLP to change its Registered Office from "the State of Haryana" to the "State of Uttar Pradesh"

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Registrar Of Companies at the address Registrar Of Companies, 4th Floor, IFCI Tower, 61. Nehru Place, New Delhi – 110019 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant LLP with a copy of the applicant LLP at its registered office at Flat No-A4/802 8th Floor Tower No-4 Tulip violet Sector-69, Gurgaon, Haryana 122001.

For and on behalf of the Applicant ALOK DADHICH Designated Partner DIN: 08491562 Add: G 704, Pearl Court, Ramprashta Green, Sector- 7, Vaishali, Ghaziabad-201010

कॉर्पोरेट मर्चेट बैंकर्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः यूजी-24, विश्वदीप टॉवर, डिस्ट्रिक सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, भारत CIN: L74899DL1994PLC061107

नं: +91–9573285444, ईमेल: cmbldelhi@gmail.com, वेबसाइटः www.cmbl.co.in 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए कॉर्पोरेट मर्चेंट बैंकर्स लिमिटेड के अलेखापरीक्षित क्तिय परिणाम

भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस) के अनुपालान में तैयार

30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लि	30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण						
विवरण	30.09.2023 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित				
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	-	-	7.50				
अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (कर, विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पूर्व)	(13.93)	(1.80)	(0.82)				
कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात)	(13.93)	(1.80)	(0.82)				
कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात)	(13.93)	(1.80)	(0.82)				
अवधि के लिए कुल समग्र आय (अवधि (कर पश्चात) के लिए लाभ/(हानि) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल)	(13.93)	(1.80)	(0.82)				
इक्विटी शेयर पूंजी	330.00	330.00	330.00				
आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	-	-	-				
प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/– प्रत्येक) (चालू और बंद प्रचालनों के लिए)							
(ए) बेसिक:	(0.42)	(0.05)	(0.02)				
(बी) डायल्यूटेड	(0.42)	(0.05)	(0.02)				

- उपर्युक्त परिणामों की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा मंगलवार or नवंबर, 2023 को आयोजित उनकी बैठक में रिकॉर्ड पर लिए गए। कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षको
- ने 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए परिणामों की सीमित समीक्षा की है। ऊपर सेबी (सूचीब़द्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गए समाप्त तिमाही और छमाही के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। समा तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइन
- www.bseindia.com और www.msei.in और कंपनी की वेबसाइट www.cmbl.co.in पर उपलब्ध है। उपर्युक्त परिणाम कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखां मानक) नियमावली, 2016 यथासंशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित

निदेशक मंडल की ओर से व उन्हीं के लिए कॉर्पोरेट मर्चेंट बैंकर्स लिमिटेड

निदेशक डीआईएनः 09738368

💶 एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड CIN: L65910HR1982PLC034071

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर—32, गुरुग्राम—122001, हरियाणा फोन : + 91-124-4675500, फैक्स : + 91-124-4370985 ई-मेल : corporate@hbleasing.com, वेबसाइट : www.hbleasing.com 3 को समाप्त निमाही/अर्द्ध-वर्ष हेन अनंकेक्षित विन्तीय परिणामों का विव

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त	पूर्व वर्ष में संगत तिमाही	अर्द्ध वर्ष समाप्त
		30/09/2023	समाप्त 30/09/2022	30/09/2023
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित
1.	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	10.52	7.50	25.72
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद मदो से पूर्व)	2.97	0.98	3.43
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर पूर्व (अपवाद मदों के बाद)	2.97	0.98	3.43
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात (अपवाद मदों के बाद)	2.97	0.98	3.43
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है]	2.97	0.98	3.43
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1100.41	1100.41	1100.41
7.	संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर, जैसाकि पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाया गया है)	NA	NA	NA
8.	प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/– प्रत्येक) (जारी और बंद प्रचालनों हेतु)			
	मूल :	0.02	0.01	0.03
	तनुकृत :	0.02	0.01	0.03

(i) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज को प्रस्तुत किए गए तिमाही/अर्द्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही/अर्द्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, बीएसई लिमिटेड, www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.hbleasing.com पर उपलब्ध है।

(ii) उपरोक्त परिणाम अंकेक्षण समिति के समक्ष 08 नवम्बर, 2023 को सम्पन्न उसकी बैठक में प्रस्तुत एवं उसके द्वारा पुनरीक्षित किए गए थे और निदेशक मंडल द्वारा उसी तिथि को सम्पन्न उसकी बैठक में अनुमोदित किए गए थे। कृते एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

अनिल गोयल

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 ('इंड एएस') के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।

सबामण्यम बोमिरेददी गरी

स्थान : गुरूग्राम (प्रबंध निदेशक दिनांकः 08 नवंबर, 2023 तिथि : 08/11/2023 DIN: 00001938 स्थानः नई दिल्ली

2+2 DIALOGUE

Israel war may be part of talks between India, US

SUBHAYAN CHAKRABORTY New Delhi, 8 November

The ongoing wars in Israel and Ukraine are expected to figure in the fifth India-US 2+2 Ministerial Dialogue on Friday, sources said.

On Wednesday, the Ministry of External Affairs announced Defence Minister Rajnath Singh and External Affairs Minister S Jaishankar will meet with US Secretary of Defence Lloyd J Austin III and Secretary of State Antony J Blinken in New Delhi. The city had last hosted the summit in 2020.


The government has said the ministers will take stock of contemporary regional issues and exchange views about shared priorities for augmenting cooperation in multilateral platforms, and through frameworks such as Quad.

While the dialogue has historically focused on only bilateral issues, people familiar with the development said the war in Gaza is set to be discussed. America's closest ally in West Asia, Israel is also a key supplier of unmanned aerial vehicles, missiles, and radar systems to India, shipping in \$4.2 billion worth of defence gear between 2001 and 2021, according to the SIPRI Arms Transfers Database.

The defence partnership with Tel Aviv has picked up pace since 2017 when India awarded Israel Aerospace Industries (IAI) its largest defence contract of almost \$2 billion for supplying advanced mediumrange surface-to-air missile systems (MRSAM). In 2021, both sides successfully jointly tested the defence system.

Jointly developed by IAI and the Defence Research and Development Organisation (DRDO), in partnership with other defence companies in Israel and India. the MRSAM is being used by all the three wings of the Indian army and also Israel Defence Forces (IDF). Reports said India had secured two more contracts for long endurance drones from Israel.

"In a similar vein, both sides are also expected to discuss the continuing war in Ukraine, on which a wider gap exists between the foreign policy of both parties," a diplomatic source said. The stalemate in Ukraine, 20 months after the



(From left): Defence Minister Rainath Singh, External Affairs Minister S Jaishankar, US Secretary of State Antony Blinken, US Defence Secretary Lloyd Austin at the 4th US-India 2+2 Ministerial Dialogue, in Washington on April 12, 2022

Russian invasion began in February 2022, has recently been overshadowed by the Israel-Hamas war. However, the diplomatic implications for India's energy sector have remained serious as the discounts on crude oil received by India from Moscow have reduced in recent months.

The war in Ukraine has seen a geopolitical deadlock at the United Nations (UN) as both Russia and Ukraine dig into their positions after repeated waves of offensive and counteroffensive pushes. Meanwhile, the Western allies led by the United States and European Union have piled sanctions on Moscow. India has abstained from all major votes held at the UN on condemning Russia, so far. New Delhi also abstained from a vote to remove Russia from the UN Human Rights Council in the initial days of the war.

A key bilateral engagement mechanism, the 2+2 format has been used by both sides to reaffirm the India-US Comprehensive Global Strategic partnership. "The 2+2 will enable a high-level review of progress being made in crosscutting aspects of defence and security cooperation, technology value chain collaborations," the MEA said.

INDIA'S 2+2 MATHS

Besides annual engagements at various policy levels, India has instituted 2+2 dialogues to better address strategic and security concerns of key partners taking into account political factors on both sides. The meetings with the US have produced two foundational defence pacts. These are the **Communications Compatibility** and Security Agreement in 2018 focussing on military interoperability, and the Basic Exchange and Cooperation Agreement in 2020 for geospatial intelligence.

COUNTRY	BEGAN IN
United States	2018
Japan	2019
Australia	2021
Russia	2021

COUNTRY	BEGAN IN
United States	2018
Japan	2019
Australia	2021
Russia	2021

▶ FROM PAGE 1

India Inc...

With AQI levels literally off the charts in Delhi-National Capital Region (NCR), the firm is also seeing an increase in the number of companies interested in transitioning to greener mobility alternatives and adopting its business-tobusiness offering, Blu for Business, which caters to corporate clients.

Animidh Am and chief operating officer, institution, in funding the eral other infrastructure proj-BluSmart, says the company is keen to collaborate with policymakers and civil societies for the larger public welfare.

EVs are a solution to India's rising air quality index (AOI) problem since they have "zero tailpipe emissions", agrees Shailesh Chandra, managing director of Tata Motors (TaMo) Passenger Vehicles and Tata Motors Electric Mobility. "The deteriorating air quality in the NCR. Mumbai and several other cities across the country underscores the urgent need to accelerate EV adoption," he says. Companies have also woken up to the reality of rising air pollution impacting work.

"Extreme climate changes and freak weather conditions. like we are experiencing in Delhi-NCR and Mumbai, are sure to have an adverse impact on the productivity of employees," says MVP Kumar, geo head of operations, work dynamics, West Asia, JLL. "While it is difficult to quantify the cost of air pollution," Kumar says the firm is taking necessary action to keep "our people safe, healthy and productive". The real estate services company has fitted the air ducts in its offices with UV lamps to irradiate microorganisms and has deployed air filters and sensors to monitor and improve air quality.

JLL, along with others such as beverages firm PepsiCo India, consumer goods leader Hindustan Unilever (HUL), and auto major Hero MotoCorp are also betting on air purifiers in their offices to maintain indoor air quality, and a hybrid culture that gives employees the flexibility to work from home during this time.

TaMo, too, requires employees to report to the office only twice a week. Food delivery major Swiggy adds that it will distribute masks across its

delivery fleet in Delhi-NCR. Its for the West Container spokesperson says they are "actively encouraging our delivery partners to prioritise their safety and urging them to wear masks and stay well-hydrated during their deliveries".

Adani...

Karan Adani, whole time director and chief executive officer of the ports operator, said: "We welcome the association of the US Development Finance ment's development finance Adani project — and we see this as a reaffirmation by the international community of our vision, our capabilities and governance."

The Port of Colombo is the largest and busiest trans-shipment port in the Indian Ocean. It has been operating at more than 90 per cent utilisation since 2021, signalling its need for additional capacity. The western terminal is being developed with an investment of close to \$650 million.

The construction of the terminal began in 2022 and it is expected to be completed by 2025, with the first phase seeing completion by 2024.

It will cater to growing economies in the Bay of Bengal, taking advantage of Sri Lanka's prime position on major shipping routes and its proximity to these expanding markets. The opportunity to capture trans-shipment cargo has prompted the Centre to expedite its own mega project - the Great Nicobar Port.

According to Julie Chung, US ambassador to Sri Lanka. the development will facilitate private sector-led growth in Sri Lanka and attract foreign exchange during its economic recovery

The island country had a major economic crisis in 2021, during which its currency depreciated by more than half and it had to halt essential imports, including food products and fertilisers.

India had extended close to \$4 billion to Sri Lanka during this period. Experts said it was a resistance move by the US to the growing Chinese influence in the region through heavy investment in infrastructure.

Colombo Port also has a terminal run by China Harbour Engineering Co.

"DFC's commitment of \$553 million in private-sector loans

Terminal will expand its shipping capacity, creating greater prosperity for Sri Lanka - without adding to sovereign debt while at the same time strengthening the position of our allies across the region," said Scott Nathan, CEO.

According to Neelam Deo, a former diplomat, the investment needs to be seen in the context of China's investment in Sri Lanka, where the country has been given Hambantota Corporation, the US govern- Port on a 99-year lease by the island nation along with sevects. "The message this sends to countries like Sri Lanka is that they have alternatives to the inflow of Chinese money. The investment will allow Sri Lanka to achieve a balance, at least partially," Deo told Business Standard.

Tesla...

This meeting is to ensure that talks between India and Tesla

"are moving in the right direction", the person added. The commerce ministry

and Tesla did not respond to requests for comment.

Tesla and India have been in talks for several months with the US carmaker open to setting up a factory but also keen to get lower import taxes for some of its high-end vehicles.

Modi's office held a meeting with various ministries on Monday to expedite the new EV policy, said a third source.

The third person added the the impact the new policy could have on the Indian EV market, as local carmakers have often said lower EV import taxes could disrupt the market and hurt their plans.

Tesla first tried to enter India in 2021, pushing officials to lower the 100 per cent import tax for EVs, but last year the talks collapsed when officials conveyed the company would have to first commit to local manufacturing.

BS SUDOKU #4126 6 5 1 3 4 9 5 6 6 3 8 9 3 6 5

SOLUTION TO #4125 6 5 4 2 3 1 3 7 5 8 2 8 9 6 4 7 3 5 4 6 8 1 3 1 8 9 7 5 5 8 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 9 4 6 5 1 2

6 7 9 1 4 5 8

8 2 3

5

Easy: $\star\star$ Solution tomorrow

HOW TO PLAY

Fill in the grid so that every row, every column and every 3x3 box contains the digits 1 to 9

PEARL GLOBAL Exceeding Expectations...Always

PEARL GLOBAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74899DL1989PLC036849

Registered Office.: C-17/1, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057 Corp. Off.: Pearl Tower, Plot No. 51, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon-122001, Haryana Tel: 0124-4651000; E-mail: investor.pgil@pearlglobal.com; Website: www.pearlglobal.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

(Rs. in Lakhs except earning per share)

S. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations	96,792.57	1,86,956.84	86,800.89	3,18,121.91
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,Exceptional and/or Extraordinary items*)	4,558.64	10,313.80	3,235.67	16,238.96
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items*)	4,553.26	10,306.25	3,195.59	17,584.92
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	3,896.01	8,631.82	2,588.29	15,299.22
5	Total Comprehensive Income for the period(Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	3,866.81	8,239.39	876.54	13,995.27
6	Equity Share Capital	2,166.39	2,166.39	2,166.39	2,166.39
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	_	_	_	70,080.17
8.	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (not annualised)				
	Basic	18.32	40.50	10.68	68.90
	Diluted	18.22	40.33	10.68	68.79

') Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit & Loss in accordance with Ind AS Rules.

- (1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Finacial Results (both Consolidated & Standalone) are available on the Company's website at www.pearlglobal.com, besides the websites of BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.
- (2) The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of the
- Directors of company at their meetings held on November 8, 2023 Additional information on standalone financial results pursant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

	Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Ended 31.03.2023 (Audited)
Turnover	21,850.25	47,599.78	30,052.41	1,10,377.07
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items	133.03	1,671.13	739.45	6,167.05
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)	10.00	1705.00		5107.00
and Other Comprehensive Income (after tax)	18.62	1,395.28	344.74	5,103.22
	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or Extraordinary items of the period	Turnover 21,850.25 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or Extraordinary items 133.03 Total Comprehensive Income for the period Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)	Turnover 21,850.25 47,599.78 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or Extraordinary items 133.03 1,671.13 Total Comprehensive Income for the period (after tax)	(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) Furnover 21,850.25 47,599.78 30,052.41 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or Extraordinary items 133.03 1,671.13 739.45 Fotal Comprehensive Income for the period (after tax)

For Pearl Global Industries Limited

(Pallab Banerjee) Managing Director



Registered Office: Plot No. 5, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chuna Bhatti, Kolar Road, Bhopal-462016, Madhya Pradesh (CIN: L45201MP2006PLC018689)

India's Largest Road Construction Company

EBITDA

62,828



Revenue

503,545

1 Union Territory

Total Con Other Cor

(a) Basic

Equity share capita

Place: Gurugram

Requirements) Regulations, 2015:

Earnings Per Share (before extraordinary items)(of Rs. 10/- each)(not annualised)

Earnings Per Share (after extraordinary items)(of Rs. 10/- each)(not annualised)



10,044



25,839

14.621.50

14.621.50

Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30 September 2023

PAT

20,304

(₹ in lakhs)

14.621.50

	,					<i>'</i>		
							(₹ in lakhs)	
	Particulars	Standalone						
		Quarter ended			Six months ended		Year ended	
		30-Sep-23	30-Jun-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
	Total Income from Operations (net)	246,149.92	262,697.14	226,728.65	508,847.06	490,865.81	1,018,417.43	
	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	11,967.04	8,336.54	6,415.17	20,303.58	8,395.37	22,177.51	
	Total Comprehensive income [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and	12,226.46	8,914.22	6,545.85	21,140.67	8,605.79	26,846.51	

14.621.50

14,621.50

14.621.50

б	(a) Basic (b) Diluted	8.18 8.18	5.70 5.70	4.39 4.39	13.88	5.74 5.74	15.17 15.17	
	Particulars	Consolidated						
Sr. No		Quarter ended			Six months ended		Year ended	
		30-Sep-23	30-Jun-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations (net)	289,420.49	294,429.95	260,310.81	583,850.44	550,933.63	1,071,160.85	
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	7,320.60	1,230.98	1,302.01	8,551.58	(4,208.92)	(139.24)	
3	Total Comprehensive income [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7,584.19	2,149.36	1,434.62	9,733.55	(3,998.86)	4,496.31	
4	Equity share capital	14,621.50	14,621.50	14,621.50	14,621.50	14,621.50	14,621.50	
5	Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised): (a) Basic (b) Diluted	5.01 5.01	0.84 0.84	0.89 0.89	5.85 5.85	(2.88) (2.88)	(0.10) (0.10)	
6	Earnings Per Share (after extraordinary items)(of Rs. 10/- each)(not annualised):			Alexander of the second				

(a) Basic (b) Diluted

- The above unaudited Standalone and Consolidated financials results were reviewed by the Audit Committee and were approved & taken on record by the Board of Directors at
- The above unaudited financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and other accounting principles generally accepted in India
- The above is an extract of the detailed format of Quarter and Six monthe period ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchanges website www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website, www.dilipbuildcon.com.

For and on behalf of the Board of Directors of

























